



8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201301, U.P., India T.: +91 120 4308000 | F: +91 120 4311010-11 www.triveniturbines.com

By E-filing

REF: TTL: SE: 08/08 Date: August 6, 2025

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
P.J. Tower,	Exchange Plaza,
Dalal Street, Fort,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai
Mumbai - 400 001	- 400 051
Thru: BSE Listing Centre	Thru: NEAPS
STOCK CODE: 533655	STOCK CODE: TRITURBINE

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Intimation pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper Advertisement.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of the SEBI Listing Regulations, we have enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on August 6, 2025, regarding the opening of special window for re-lodgement of the transfer requests of physical shares in accordance with the SEBI Circular No: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025.

The advertisements are published in:

- i) Financial Express (English) and
- ii) Jansatta (Hindi)

The aforesaid advertisement(s) are also available on the website of the Company at www.triveniturbines.com.

You are requested to take this information on record.

Thanking you,

Yours' faithfully For Triveni Turbine Limited

Pulkit Bhasin

Company Secretary M. No. A27686

Encl: A/a



TRIVENI TURBINE LIMITED

Registered office: A-44 Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida-201 305, Uttar Pradesh Corporate office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16A, Noida- 201 301, Uttar Pradesh

Website: www.triveniturbines.com, E-mail: cs.compliance@triveniturbines.com, Phone: +91 120 4308000

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Triveni Turbine Limited

Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 and in order to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, shareholders of Triveni Turbine Limited ("Company") are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of 6 months from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to April 1, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. Eligible shareholders may submit their transfer deeds along with requisite

documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Alankit Assignments Limited, Unit: Triveni Turbine Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension New Delhi-110055, email- rta@alankit.com. During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized mode and due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

The details regarding the opening of this special window are also disseminated or the Company's website at www.triveniturbines.com.

For Triveni Turbine Limited **Pulkit Bhasin**

Company Secretary

Place: Noida (U.P.) Date : August 6, 2025

RACL Geartech Limited Registered Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 Tel: 0120-4588500

21 RAUNAO GEARS

Website: www.raclgeartech.com CIN: L34300DL1983PLC016136 SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS

OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 ("Circular") has facilitated mechanism for a "Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares" and accordingly all physical share transfer deeds lodged for transfer with the Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") prior to discontinuation of physical mode of transfer, i.e., April 01, 2019 and rejected/returned by the Company/RTA due to deficiency in the documents and was required to be re-lodged with requisite documents on or before the cut-off date fixed for re-lodgement of such transfer deeds, i.e., March 31, 2021; shall be provided with an opportunity to re-lodge the same with the Company/ RTA during a special window period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. However, due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests. For further details you may contact the Company Investor Relation Department or the RTA of the Company, i.e., MAS Services Limited. A copy of the Circular also available on the website of the Company at www.raclgeartech.com.

For RACL Geartech Limited Place: Noida Neha Bahal Date: August 5, 2025 Company Secretary & Compliance Officer "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

(? in Million)

Voor onded

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies

SCAN ME

NATIONAL COMMODITY CLEARING LIMITED CIN: U74992MH2006PLC163550

Reg. office: Ackruti Corporate Park, 1st Floor, L.B.S. Road, Kanjurmarg (West), Mumbai - 400 078

Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

Ph: 91 22 6280 4900 | Fax: 91 22 6280 4901 | Email: contactus@nccl.co.in | Website: http://www.nccl.co.in

(Rs. in lakhs)

SI. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	557.94	518.08	501.93	2,118.00
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(292.18)	(231.61)	(312.85)	(984.29)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(292.18)	(231.61)	(312.85)	(984.29)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(218.67)	(173.31)	(233.36)	(739.21)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(223.19)	(128.68)	(237.01)	(720.86)
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	12,275	12,275	12,275	12,275
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year #	-	-	-	3,663.41
8.	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	(0.18)* (0.18)*	(0.14)* (0.14)*	(0.19)* (0.19)*	(0.60) (0.60)

*Not Annualised

Note: (a) The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial Results. The full format of the quarter ended Financial Results are available on Company's website www.nccl.co.in.

(b) # Includes Company's own contribution towards Core SGF net of withdrawals amounting to Rs. 4,391.18 lakhs

(March 31, 2025 : Rs. 5,118.20 lakhs) and income earned amounting to Rs. 5,121.85 lakhs (March 31, 2025 : Rs. 4,939.75 lakhs) aggregating to Rs.9,513.03 lakhs (March 31, 2025 : Rs. 10,057.95 lakhs)

For National Commodity Clearing Limited

Rajiv Relhan Place: Mumbai Managing Director & CEO Date: August 5, 2025 (DIN: 07214524)

OneSource Specialty Pharma Limited

(formerly known as Stelis Biopharma Limited)

Registered Office: Unit no. 902, "Cyber One" situated at Plot no.-4 & 6, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai-400703 Corporate Office: Star 1, Opp IIM Bangalore, Bilekahalli, Bannerghatta Road, Bangalore - 560076, India CIN: L74140MH2007PLC432497, Website: https://www.onesourcecdmo.com, Mail: info@onesourcecdmo.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Consolidated Standalone Quarter ended Voor onded Quarter ended

SI.		quarter ended		rear ended	quarter ended			rear ended	
VO.	Particulars	June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Revenue from Operations	3,272.70	4,259.53	2,922.89	14,448.53	3,210.12	4,774.14	2,400.26	12,995.89
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(15.29)	835.02	(421.16)	437.79	248.15	1,748.77	(604.70)	907.95
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (Before Exceptional and/ or Extraordinary items and discountined operations)	26.84	991.92	(10.47)	935.64	248.15	1,748.77	(190.15)	1,322.50
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items and discountined operation)	(1.86)	985.02	(55.47)	(179.71)	248.15	1,741.87	(239.66)	193.10
5	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic:	(0.02)	8.61	(0.51)	(1.63)	2.17	15.22	(2.22)	1.75
	2. Diluted:	(0.02)	8.59	(0.51)	(1.63)	2.16	15.19	(2.22)	1.75

the guarter ended 30 June, 2025 is available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.onesourcecdmo.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

By order of the Board Neeraj Sharma **Managing Director**

Place: Bengaluru Date: August 04, 2025



The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Statement of Consolidated and Standalone Financials Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financials Results for



ICICI BANK LIMITED



Please scan QR code to view the Notice of AGM & Annual Report

CIN: L65190GJ1994PLC021012 Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara 390 007, Gujarat, Phone: 0265-6722239 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051, Maharashtra, Phone: 022-4008 8900 Website: www.icicibank.com, Email: companysecretary@icicibank.com

NOTICE OF THIRTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty First Annual General Meeting (AGM) | of the Members of ICICI Bank Limited (Bank/Company) will be held on Saturday, August 30, 2025 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

The Bank has on August 5, 2025 sent the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participants in accordance with the | The Board of Directors at their Meeting held on April 19, 2025 have above mentioned MCA Circulars and Circular dated May 12, 2020 and other relevant circulars, including Circular dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). A letter containing the web-link and QR code for accessing the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 has been sent to those Members whose email addresses are not registered with the Bank/Depository Participants. The physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 will be sent to those Members who request for the same. The Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 can also be accessed on the Bank's website at https://www.icicibank.com/aboutus/annual, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members can participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the instructions mentioned in the Notice of the AGM. The Bank is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The Bank has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. Members including those who hold shares in physical form or who have not registered their email address, can cast their votes electronically by following the instructions mentioned in the Notice of the AGM.

Members are also informed that:

- The remote e-voting period commences on Tuesday, August 26, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, August 29, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility for e-voting will be made available to the Members during the
- Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- 4. Members who have not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- A Person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, August 23, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the date of sending of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Saturday, August 23, 2025, can cast the vote by following the instructions mentioned in the Notice of the AGM.

In case of any queries or issues or grievances pertaining to e-voting, Members may refer to Help/FAQ's section at www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 3" Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051 at pallavid@nsdl.com. Alternatively, Members may also write to the Company Secretary of the Bank at iciciagm@icicibank.com or call on 022-4008 8900.

recommended payment of dividend of ₹11 per fully paid-up equity share of face value of ₹ 2 each for the financial year ended March 31, 2025. The Record Date for determining the names of Members eligible for dividend on equity shares, if declared at the AGM, is August 12, 2025.

As per the prevailing provisions under the Income-tax Act, 1961 (the Act), dividend paid or distributed by the Bank is taxable in the hands of the Members. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates at the time of making the payment of the dividend to the Members. All communications/queries in this respect should be sent at einward.ris@kfintech.com. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax

has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Members are requested to provide/submit documents as applicable to them on or before August 12, 2025 (6:00 p.m. IST) at https://ris.kfintech.com/ form 15/forms.aspx?q=0. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective Members as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. For more details, Members are requested to refer to the instructions mentioned in the Notice of the AGM.

Members holding shares in demat form are requested to register/update their KYC details with their respective Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to register/update their KYC details including postal address, email address, permanent account number (PAN), bank details etc. by submitting duly filled and signed Form ISR-1 along with such other documents as prescribed in Form ISR-1 to KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Bank (R & T Agent), Unit: ICICI Bank Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serlingampally, Hyderabad 500 032, Rangareddy, Telangana.

Form ISR-1 is available on the website of the Bank at https://www.icicibank. com/about-us/invest-relations and on the website of the R & T Agent at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx.

In case of non-updation of PAN or contact details or mobile number or bank account details or specimen signature, in respect of physical folios, Members may please note that as mandated by SEBI, dividend shall be paid only through electronic mode upon furnishing all the aforesaid details in entirety.

Place: Mumbai

Date: August 5, 2025

By Order of the Board Sd/-Prachiti Lalingkar Company Secretary

BEML Land Assets Limited (CIN: L70109KA2021G0I149486), Schedule "C" Company under Ministry of Defence, Gol

Registered Office: "BEML SOUDHA", 23/1, 4th Main Road, S.R. Nagar, Bengaluru-560 027. Tel. & Fax: (080) 22963140, E-mail: cs@blal.in. Website: www.blal.in

NOTICE REGARDING 4TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the 4th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 1st September, 2025 at 11:30 Hours (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 09/2024 dated 19.09.2024 in continuation to the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020, General Circular No.02/2022 dated 05.05.2022, General Circular No.10/2022 dated 28.12.2022 and General Circular No.09/2023 dated 25.09.2023 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03.10.2024 read with Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 issued by SEBI (collectively referred to as "the Circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM. Members can be able to attend the AGM through VC/OAVM.

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 containing the standalone financial statements for the financial year ended 31st March, 2025, alongwith Board's Report, Auditor's Report and other documents, will be sent only through e-mail to the shareholders of the Company whose e-mail address are registered with the Company/Depositories. The Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 will be available on the Company's website at www.blal.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. However, hard copy of the Annual Report will be sent to Members on request.

Manner of casting vote through remote e-voting and e-voting system:

The manner of voting through remote e-voting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail address has been provided in

The facility for voting through e-voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting system. The manner of voting through e-voting system has been provided in the Notice of the AGM.

Shareholders whose e-mail address are not registered with Company/Depositories are requested to follow the process for registering their e-mail address/mobile no. for remote e-voting/e-voting at the AGM as set out in the Notice of the AGM and briefed as under:

For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to customercare@integratedindia. in & giri@integratedindia.in.

For Demat shareholders - Please update your e-mail id and mobile no. with your respective Depositories.

For Individual Demat shareholders - Please update your e-mail id and mobile no. with your respective Depositories which is mandatory while e-voting and joining virtual AGM through Depository.

Manner of registering/updating e-mail address:

Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their e-mail address with the Company are requested to register/update the same by sending their name, folio number, e-mail id and self-attested copy of PAN card through e-mail to Integrated Registry Management Services Private Limited, Share Transfer Agent of the Company at customercare@ integratedindia.in & giri@integratedindia.in. Members holding shares in dematerialised mode and who have not registered/updated their e-mail address with their Depository Participants, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participants with whom they maintain their demat account(s). The login credentials for casting votes through e-voting shall be sent to the members through e-mail. Members who do not receive e-mail or whose e-mail address is not registered with the Company, may write to Integrated Registry Management Services Private Limited, the Share Transfer Agent at customercare@integratedindia.in & giri@integratedindia.in.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions for remote e-voting, e-voting at the AGM and joining the virtual AGM. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in Demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

١	Login type	Helpdesk details
	Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Contact at toll free no.: 1800 21 09911.
	Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000.

If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 2109911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free

> For BEML Land Assets Limited Sd/-

New Delhi

No. 1800 21 09911.

Place: Bengaluru

Date: 05.08.2025

Ravisekhar Rao S V Company Secretary & Compliance officer

epaper.financialexpress.com

जनसता

6 अगस्त, 2025

Public Notice for loss of Share Certificate(s Notice is hereby given that the following share certificate(s) of **JSW STEEL LIMITED** have been reported lost and has applied to the company for the issue of

Folio No.	Name of the holder/			
	purchaser(s)	Certificate No(s).	Distinctive Nos.	No. of shares
W0713699	RAVINDER KUMAR	2443193	2381204651 - 5650	1000
31	W0713699	W0713699 RAVINDER KUMAR	W0713699 RAVINDER KUMAR 2443193	

Any person (s) who has / have any claim in respect of the said certificate (s) should lodge such claim (s) with the share department of the Company at its Regd. Office as per address given JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra, India - 400051 within 15 days of the publication of this NOTICE. After which no claim will be entertained and the company will proceed to ssue the duplicate share certificate (s).

NAME OF THE SHAREHOLDERS (RAVINDER KUMAR) Place: NEW DELHI

Public Notice for loss of Share Certificate(s)

Notice is hereby given that the following share certificate (s) of SYMPHONY LIMITED

S. N.	Folio No.	Name of the holder/ purchaser(s)	Certificate No(s).	Distinctive Nos.	No. of shares
1	0005476	HARVINDER SINGH AVTAR KAUR	113779	69200351 - 0850	500
			847	33825926 - 6425	500

Any person (s) who has / have any claim in respect of the said certificate (s) should lodge such claim (s) with the share department of the Company at its Regd. Office as per address given Symphony House, Third Floor, FP-12, TP-50, Off S.G. Highway, Ahmadabad Gujarat 380059 within 15 days of the publication of this NOTICE. After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue the duplicate share certificate (s).

Sd/-

Sd/-NAME OF THE SHAREHOLDERS (HARVINDER SINGH) (AVTAR KAUR) Date: 06/08/2025 Place : NEW DELHI



आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: १५वीं मंजिल, डरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - ११००१९ **दरभाष नं.:** 0120-4588500 वेबसाइटः www.raclgeartech.com CIN: 134300D11983P1C016136



भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

रतद् द्वारा स्रूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक २ जलाई, २०२५ ("परिपत्र") के माध्यम से "भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अगरोधों को फिर से दाखिल करने के लिए विशेष विंडो" की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की है और तदन्सार, हस्तांतरण के भौतिक मोड को बंद करने से पहले कंपनी याँ उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("RTA") के पास हस्तांतरण के लिए जमा किए गए सभी भौतिक शेयर हस्तांतरण कार्य, अर्थात ०१ अप्रैल, २०१९ और दस्तावेजों में कमी के कारण कंपनी/RTA द्वारा अस्वीकार/वापस कर दिए गए थे और ऐसे हस्तांतरण कार्यों को फिर से दाखिल करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि, अर्थात ३१ मार्च, २०२१ को या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से दाखिल करना आवश्यक था; ७ जुलाई, २०२५ से ६ जनवरी, २०२६ तक छह महीने की विशेष अवधि के दौरान कंपनी/आरटीए के पास पुनः जमा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियाँ (सूचीबद्ध कंपनी/आरटीए के पास आज तक लंबित अनुरोधों सहिंत) केवल डीमैट मोड में जारी की जाएँगी। हालाँकि, ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के निवेशक संबंध विभाग या कंपनी के आरटीए, यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

सर्कुलर की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट <u>www.raclgeartech.com</u> पर भी उपलब्ध है।

कृते आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड नेहा बहल

स्थान: नोएडा दिनांक: ५ अगस्त, २०२५

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड कम्पनी पहचान संख्या : L29110UP1995PLC041834

पंजीकृत कार्यालय : ए−44 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज-॥ एक्सटेंशन, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305 कॉर्पोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टॉवर्स 15-16, सेक्टर 16 ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301 दूरभाष : 91 120 4308000 ई—मेल <u>cs.compliance@triveniturbines.com</u> Website : <u>www.triveniturbines.com</u>

त्रेवेणी टर्बाइन लिमिटेड के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 वे अनुसरण में और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित कर के लिए, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है वि हस्तांतरण कार्यों को फिर से दर्ज करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक ह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किर गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार / वापिस कर दि गए / उन पर ध्यान नहीं दिया गया। पात्र शेयरधारक अपने शेयर हस्तांतरण विलेख को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट : त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, या ईमेलrta@alankit.com पर जमा कर सकते हैं।

इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की जाने वाली प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट रूप में जारी की जाएंगी और ऐसे हस्तांतरण—सह—डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया

का पालन किया जाएगा।

www.triveniturbines.com पर भी प्रसारित किए गए हैं। ंकृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

स्थान : नौएडा (उत्तर प्रदेश) दिनांक : अगस्त 6, 2025

प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट

(पुलकित भसीन) कम्पनी सचिव M. No. A27686



उम्मीद हाउसिंग फाइर्नेस प्रा. लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयःयुनिट नं.2009-14, 20वीं मंजिल, टॉवर-2, भैग्नम ग्लोबर र्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, गुरूग्राम (हरियाणा) -122002 सीआईएन: U65922HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV { नियम–8(1)देखें}कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 200 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हो के नाते और प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) वं तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, निम्न विवरण के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए एक मांग जारी किया जाता है।

उक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्दव ऋणी / सह-उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षर ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम के धारा 13 के उप–धाः (4) के तहत उन्हें प्रदान किए गए शक्तियों के प्रयोग में इस तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक

विशेष रूप से ऋणी / सह-उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जात है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ लेन-देन करने पर यहाँ निर्दिष्ट राशि के साथ भागे ब्याज, लागत और शुल्क संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान तक की राशि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8 के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गर

मांग नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं.	उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटर का नाम और पता, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	माग सूचनाः दिनाक	सांकेतिक कब्जे की तिथिः
	1. दीपक कश्यप पुत्र कृष्ण पाल (उधारकर्ता)	12—मई—2025	04-अगस्त-2025
¹-	2. आकाश कश्यप पुत्र कृष्ण पाल (सह—उधारकर्ता)	रु. में ब	काया राशि
ı	3. दीपा देवी पत्नी दीपक कश्यप (सह—उधारकर्ता)	12 मई	2025 तक
	उपरोक्त सभी निवासी –गुप्ता मार्केट, मुरादग्राम पुर		/- (केवल दस
	पुरसी, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201206) हजार चार सौ
	ऋण संख्याः LXSAH04222&230023731	चौंतीस रुपये)13 मई 2025 से
	ऋण अनुबंध की तिथिः 29 मार्च 2023		ब्याज और
	ऋण राशिः रु.11,10,000 / —	अन्य	शतक।

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण : मुरादग्रामपुर के गाँव में, पुरशी, परगना, जलालाबाद और तहसील मोर्द नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 451 मी से 97.55 वर्ग गज यानी 8[,] 56 मीटर क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह सम्पूर्ण भाग एवं अंश ।

-:		
2	1. देविन्द्र पुत्र श्याम वीर सिंह (उधारकर्ता)	12—मई—2025 02—अगस्त—2025
	2.तेज पाल सिंह पुत्र श्याम बीर सिंह (सह—उधारकर्ता)	सांकेतिक कब्जे की तिथिः
	3. सीमा कुमारी पत्नी देविन्द्र (सह—उधारकर्ता) उपरोक्त सभी निवासी—डी ३ २५९ नंद नगरी पूर्व दिल्ली. दिल्ली—110093 साथ ही—बी—4/189. नंद	12 मई 2025 तक रु. 12,98,367/ —(केवल बारह
	नगरी,दिल्ली—110093 ऋण संख्याः LXLAX02923&240028032 ऋण अनुबंध की तिथिः 28 अगस्त 2023	लाख अड्डानवे हजार तीन सौ सड़सठ रुपये)13 मई 2025 से अतिरिक्त ब्याज और
	ऋण राशिः 12,60,000/-	अन्य शुल्क।

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण : बिना छत के अधिकार के निर्मित प्रथम तल, संपत्ति संख्या सी-269, खस संख्या 377 में से, ग्राम घोंडा, गुजरान खादर में सी ब्लॉक की आबादी में, गंजी संख्या 11, भजनपुरा, इलाक शाहदरा, दिल्ली—110053 में स्थित संपत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज,यार्न 41.80 वर्ग मीटर है, इस प्रकार सीमाबद्ध है : पूर्व—संपत्ति संख्या सी—269, पश्चिम—संपत्ति संख्या सी—268 शिहदरा, ।दल्ला—110005 में ।स्थार त्तपारा पण पर रा 41.80 वर्ग मीटर हैं, इस प्रकार सीमाबद्ध हैं : पूर्व— उत्तर—अन्य की संपत्ति, दक्षिण—गली 11 फीट चौड़ी ।

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी, मोबाइल— 965005570 उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 06 अगस्त 2025 स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

📦 🍙 Pob Housing 🛮 पंजीकृत कार्याख्य : ५वां तल, अतिरिव्ध भवत, 22, केली. मार्ग, वर्ड दिली- 110001, दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाहर : www.pubbousing.com

शाखा पता : एस-17, द्वितीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110016

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अम्रोहस्ताक्षरकर्ता ने **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिनृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिनृति हित प्रवर्तन अधिनिय 2002 के नियम 8(1) के अनुपातन में और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उसत अधिनयम की घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्ती शक्तियाँ व प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचना/एं प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि को निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक खाता के समक्ष अंकितानुसार राशि का सूचना(अं की तिथि/ उत्तत सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/ गण राषि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदहारा ऋणकर्ता/ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसं निम्न विवरणित संपत्ति / यों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्रत्ये

खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/ओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन–देन न करें तथा संपत्ति/यों का लोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, ऋणानुबंध के अनुसार एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर व्याज हेतु **पीएनबी डाउसिंग फाइनेंस लि.** के प्रमाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिनृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / गारंटर के नाम	माँग सूचना तिथि		अधिग्रहण लिये जाने की तिथि	
HOU/GRP/0224 /1216696 बी.ओ.: ग्रीनपार्क	स्वर्गीय सौरम गुप्ता के समस्त विधिक उत्तराधिकारी तथा श्रीमती प्रियल गुप्ता	21.03.2025	रु. 87,29,506 / — (रुपये सत्तासी लाख उनतीस हजार पाँच सौ छह मात्र)	01.08.2025 (भौतिक)	वी—45, विला नं. 45, टाईप 1, पंचशील ग्रीन्स ।।, भूखण्ड सं. जीएच — 01ए, सेक्टर 16, नोएडा एक्स., नोएडा, उत्तर प्रदेश — 201301

थान : गीनपार्क. दिनाँक : 05-08-2025

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) सीआईएन: L65110TN2014PLC097792

पंजीकत कार्यालयः के आरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031. टेलीफोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022.



गाशिकत अधिकारी गीगतबी हाउमिंग फाइतेंस क्रिप्रिटे

सार्वजनिक सूचना

सोने की नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित कर्जदार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उसके द्वारा प्राप्त सोने के आभूषण के बदले ऋण सुविधा के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चूंकि कर्जदार सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है। हम 14/08/2025 को गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं। यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से कर्जदार से वसुल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सुचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा नाम
151677226	वीरेंद्र कुमार	दिल्ली बदरपुर
153398352	अमित कुमार	दिल्ली गांधीनगर
159325707	विपुल कुमार सिंह	आजादपुर शाखा
162010330	विपुल कुमार सिंह	आजादपुर शाखा
165361306	तृप्ता कामता	कालकाजी दिल्ली शाखा
169014509	पप्पी देवी	बाराखंभा रोड शाखा
166457132	कन्हाई प्रसाद सिंह	बाराखंभा रोड शाखा
166475815	रणबीर सिंह	नोएडा सेक्टर पचास
152322474	अजय कुमार	मुरादाबाद सिविल लाइन्स शाखा
155914844	असजद असलम	सहारनपुर अम्बाला रोड
157890802	मोहित सैनी	मुरादाबाद एमबीएल
163219097	मोहम्मद आदिल	मुरादाबाद सिविल लाइन्स शाखा
165376102	मोहम्मद तौसीफ	रूड़की उत्तराखंड
165619356	विशाल सिंह	मुरादाबाद सिविल लाइन्स शाखा
166816224	अनुज पाराशर	पल्लवपुरम मेरठ शाखा
153139806	इंतकाब ताहिर	मुरादाबाद सिविल लाइन्स शाखा
168535042	रीना रिंकू	अलीगढ उल शाखा
165236803	आकाश देशराज	रेवाडी शाखा
164316242	नीतु रामअवतार	अलवर शाखा

नीलामी 14/08/2025 को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक https://idfcegold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन 14/08/2025 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक http://gold.samil.in पर आयोजित की जाएगी। इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित कर्जदारों को अंतिम सूचना और अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सुविधा वापस ली गई राशि, सभी ब्याज और शुल्कों के साथ चुका दें, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पुरी नहीं होती है तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर उन्हीं नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की फिर से नीलामी करेगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्ते उसके विधिक उत्तराधिकारियों पर

तिथि : 06.08.2025 स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड Chola कापीर कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेनाई-600

भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भूगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिमूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सिहत चक्राकर प्रत्यामत आस्ति छड़ा सकते हैं।

9 प	। साहत युकाकर प्रत्यामूत आस्ति छुड़ा सकत ह	I			
ī.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथ
()	(ৰী)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
I.	ऋण खाता संख्या ML01ZIA00000059951, ML01ZIA00000059951, 1. राम गोपाल गुप्ता (आवेदक), मकान नंबर 70, जे-ब्लॉक, गली नंबर 1, कुशक रोड नंबर 2, स्वरूप नगर, दिल्ली —110042	16-05-2025	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	सम्पत्ति संख्या जे – 70, पंजीकरण संख्या 535, गली नंबर 1, खसरा नंबर 389, जो अनधिकृत कालोनी सरूप नगर, जे एंड के ब्लॉक, समयपुर, बादली, दिल्ली 110042 में स्थित है, क्षेत्रफल 62.709 वर्ग मीटर, चौहद्दी निम्नानुसार – पूर्व : सड़क 20 फीट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : अन्य प्लॉट	04-08-2025 सांकेतिक

2. लक्ना पुरा (सिक्नापर्पण), मकान नंबर 70, जे—ब्लॉक, गली नंबर 1, कुशक रोड नंबर 2, स्वरूप नगर दिल्ली -110042 गोपाल ऐंड कंपनी (इसके स्वामी राम गोपाल के माध्यम से) (सह—आवेदक),

जे-ब्लॉक, गली नंबर 1, कुशक रोड नंबर 2

हण खाता संख्या ### 101EDL00000091931, ###################################	形. 43,20,680 / -
म्पत्ति संख्या एच–3 / 115, तृतीय तल, यूनिट नंबर	3—बी, राजस्
प्राटिन गालम गांत महातीय गलकोत नर्र टिल्ली —110	0046

 आलोक कुमार सिंह (सह—आवेदक), गांव दिल्ली -110045

आरजेड— 2ए, फ्लैट नंबर 9, पीपल वाली गली, महावीर एन्क्लेव, पालम 4. प्रिंसेस कोचिंग सेंटर (इसकी स्वामिनी प्रियंका सिंह के माध्यम से) फीट, पश्चिम : गली 5 फीट, उत्तर : मकान नंबर 114, डी 8/1, यूनिट नंबर 1, मेन पालम, डाबरी रोड, महावीर एन्क्लेव

निर्मित सम्पत्ति सं. एच–3 / 115 का अंश रूप तृतीय तल, यूनिट नंबर 3—बी, (पश्चिमी ओर), छत के अधिक. ार के साथ, क्षेत्रफल परिमाप 83.61 वर्ग मीटर (100 वर्ग गज) कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज का हिस्सा, जो खसरा नंबर 79 / 4. दिल्ली राज्य के पालम गांव की राजस्व संपदा, महावीर एन्क्लेव कालोनी, नई दिल्ली — 110045 में स्थित है, स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग के साथ, स्टिल्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए सामान्य सीढ़ियां, सामान्य सुविधाएं, उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के आनुपातिक अधिकार, फ्री–होल्ड अधिकारों के साथ, चौहद्दी निम्नानुसार – पूर्व : पूर्वी फ्लैट ३ए, सड़क 15 दक्षिण : मकान नंबर 115/ए

ML01EDL00000068537] ML01EDL00000073667 हर्ष कौशिक (आवेदक), सम्पत्ति संख्या 45 (दक्षिणी सामने का भाग, खसरा नंबर 487, पीरागढ़ी, नई दिल्ली–110087 2. हर्ष कौशिक (आवेदक), / 5, गली नंबर 2, शकूर बस्ती, दिल्ली—1100 3.वंदना शर्मा (सह-आवेदक), डब्ल्यूजैड-668/5, गली नंबर 2, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 4.श्री श्याम प्लास्टिक (इसके प्रॉप हर्ष कौशिक के माध्यम से)

सेक्टर-1, द्वारका, दिल्ली - 110045

टाइल फैक्ट्री, सोनीपत, हरियाणा—131402

निर्मित सम्पत्ति संख्या ४५ (दक्षिणी सामने का भाग) भूमि क्षेत्रफल परिमाप 125 वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग गज का भाग) खसरा नंबर 487, जो लाल डोरा पीरा गढ़ी, नई दिल्ली 110087 की आबादी में स्थित है, नीचे फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर निर्माण का पूर्ण अधिकार सहित। चौहद्दी – पूर्व : सम्पत्ति का पूर्वी भाग / अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर सम्पत्ति का हिस्सा उसके बाद गली, दक्षिण : गली 15 फीट। फिरोजपूर बांगर, इंडस्ट्रियल माडल टाउन बांगर तहसील खरखौदा, निकट

ब्लॉक बी–1, मॉडल टाउन–।।, गांव मलकपूर छावनी, HE01DEF00000010768. किंग्सवे कैंप के पास, मॉल रोड, दिल्ली में स्थित कुल HE01DEF00000008459 क्षेत्रफल 577 वर्ग गज, प्लॉट –। सम्पत्ति संख्या 25 और स्वर्गीय मुकेश कुमार गोयल कानूनी उत्तराधिक.
 शकुंतला गोयल, सागर गोयल और पिंकी 26 के प्लॉट एरिया 384.63 वर्ग गज (577 वर्ग गज में से) पर निर्मित सम्पत्ति का भू तल, छत के अधिकार नहीं गोयल के माध्यम से (आवेदक), (बायीं तरफ का पोर्शन)

बी–1/25, मॉडल टाउन–।।, दिल्ली–110009 2 स्वर्गीय मुकेश कुमार गोयल, कानूनी उत्तराधिकारी-शकुत सागर गोयल और पिंकी गोयल के माध्यम से (आवेदक) सम्पत्ति संख्या 25 और 26, प्राइवेट फ्लैट नंबर 1, भूतल, ब्लॉक बी–1, कृष्णा अपार्टमेंट, दिल्ली-110009

3. मैसर्स साई स्टील (इसके पार्टनर सागर गोयल के माध्यम से) (सह-आवेदक), प्लॉट नंबर 10578/25, संकर गली नंबर 2, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 4. शकुंतला गोयल (सह–आवेदक),

बी-1/25, मॉडल टाउन-।।, दिल्ली-110009 सागर गोयल (सह—आवेदक),

बी-1/25, मॉडल टाउन-।।, दिल्ली-110009

स्थान : दिल्ली / एनसीआर

तिथि : 02-08-2025 तथा 04-08-2025

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

APR. an Fin Homes Ltd

केंन फिन होम्स <u>लिभिटेड</u>

सीआईएन L85110KA1987PLC008699 एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर 10ए, गुड़गाँव, रभाष : 0124-2370035 / 7625079135, ईमेल : gurgaon@canfinh

मांग सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ (नियमावली) के नियम ३(१) के साथ पिठत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत तथा नियम 3 के सा पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं / गारंटरों (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त उधारकर्ताओं' के रूप में संदर्भित) को, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में अंकित धनराशियों का, निम्न दिये गये विवरणों के अनुसार, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उक्त निर्गत सूचनायें डाकीय प्राधिकारियों द्वारा अप्रदायकृत रूप में वापस की जा चुकी हैं / उन्हें उधारकर्ताओं द्वारा विधिवत ढंग से पावतीकृत नहीं किया गया है। अतः कंपनी अब, भरसक सावधानी दिखाते हुये (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार) मांग सूचना के इस प्रकाशन को प्रक ाशित कर रही है। इसलिये, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों के परिसरों पर इन सूचनाओ को चिपकाने का निर्णय लिया है। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, निम्न विवरणितानुसार संबंधित पक्षकारों द्वारा कंपनी के पास निम्नलिखित परिसंपत्तियों को

1. 1. कोसर पत्नी फरजान (उघारकता) 2. फरजान पुत्र सरदार खान (सह-उघारकता) पता यहां पर भी: पलैट संख्या एस-2, द्वितीय तल (दाईं ओर का सामने का भाग), प्लॉट संख्या एस-2, द्वितीय तल (दाईं ओर का सामने का भाग), प्लॉट संख्या एस-39 का पश्चिमी भाग, शालीमार गार्डन मेन, गाँव- पर्सौदा, परगना- लोनी, तहसील एवं जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 201006 पता यहां पर भी: पी-146, शहीद नगर, विकमवरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 201006 पता यहां पर भी: ए-19/एस-3, दिलशाद कॉलोनी, झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, पिन- 110095 3. मोह. इकबाल पुत्र मोह. तैय्यूव अलवी (गारंटर), मकान संख्या 287, गली संख्या 3, शहीद नगर, विकमवरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 201006	क्र . सं.	उधारकर्ताओं / गारंटरों के नाम उनके पते के साथ	मांग सूचना के अनुसार अभ्यर्थित राशि'	प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि
	t.	2. फरजान पुत्र सरदार खान (सह—उधारकती) पता यहां पर भी: पलैट संख्या एस—2, द्वितीय तल (दाईं ओर का सामने का भाग), प्लॉट संख्या एस—2, द्वितीय तल (दाईं ओर का सामने का भाग), प्लॉट संख्या ए-39 का पश्चिमी भाग, शालीमार गार्डन मेन, गाँव— पसौंदा, परगना— लोनी, तहसील एवं जिला—गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन— 201005 पता यहां पर भी: सी—146, शाहीद नगर, चिकमबरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन— 201006 पता यहां पर भी: ए-19/एस—3, दिलशाद कॉलोनी, झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, पिन— 110095 3. मोह. इकबाल पुत्र मोह. तैय्यूब अलवी (गारंटर), मकान संख्या 287, गली संख्या 3, शाहीद नगर, चिकमबरपुर,	(रुपये छब्बीस लाख तेईस हजार तीन सौ अद्वारह मा.) के अनुसार मांग सूचना	तल (दाहिनी ओर का सामने का भाग), प्लॉट संख्या भाग, प्लॉट संख्या भाग, एनडे का पश्चिमी भाग, शालीमार गार्डन मेन, गाँव— पसौंदा, परगना— लोनी, तहसील और जिला— गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं : उत्तर : 40 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्रवेश द्वार, पूर्व: फ्लैट संख्या एसएफ—1. पश्चिम	29/07/2025

*उपरोक्त अंकित तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक अनुबंधितानुसार संविदागत दरों पर भावी ब्याज के साथ भुगतानयोग्य। आपको एतदुद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उपरोक्त अंकित राशि का राशि पर ब्याज की संविदाकृत दर के साथ मुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, भुगतान करने में विफल होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिये सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ करने को विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं / गारंटरों का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों को ऋणमुक कराने हेतु उनके पास उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। हस्ता. / – प्राधिकत अधिकारी दिनाँक : 05-08-2025

कैन फिन होम्स लिमिटेड स्थान : गुरुग्राम

कार्यालय वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिकी घोषणा

आर.सी. संख्या 168/2017

बैंक ऑफ इंडिया बनाम कशिश कमार रस्तोगी

बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिकी की घोषणा

(सीडी1) कशिश कुमार रस्तोगी पुत्र कमलेश कुमार रस्तोगी, जे-107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049

साथ हीः होटल व्हाइट क्लोव (पूर्ववर्ती होटल कशिश इंटरनेशनल) एक्सवी/1563, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 1. चूँकि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओए संख्या 239/2013 पर वसूली प्रमाणपत्र संख्या 168/2017, ओए

भरने की तिथि अर्थात 09.12.2013 से इसकी वसुली तक प्रमाणित देनदारों से लागत सहित तथा वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत एवं प्रभार सहित 11% प्रति वर्ष की दर से लागत तथा भावी ब्याज सहित रु. 1,47,66,513.69/- की वसूली हेतु तैयार किया गया है।

2. और जबिक अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। 3. और चंकि इसके तहत राशि रु. 1.47.66.513.69. लागत तथा भावी ब्याज सहित 11% प्रति वर्ष की दर से. ओ.ए. भरने की तिथि अर्थात

09.12.2013 से लागत सहित इसकी वसूली तक देय होगी, इसलिए एतद्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के अभाव में, निम्नलिखित संपत्ति/यों को ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा एवं बोली https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से "'**ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली**'' के माध्यम से 12.09.2025 को 12.00 बजे अप. से 01.00 बजे अप. के बीच लगेगी, यदि आवश्यक हो तो 01.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट की अवधि बढाई जा सकती है।

ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. स.	सपत्ति का विवरण	आराक्षत मूल्य	ज.ध.रा.
1.	संपत्ति संख्या 1563, मुख्य बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली	रु. 8.27 करोड़	रु. 82.70
	(i) विल्सन सर्वेक्षण मानचित्र की सहायता से यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति		लाख
	संख्या 1563 कटरा हुसैन बख्श (कटरा गदरियां) में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार		
	मुख्य बाजार, पहाड़गंज, दिल्ली में है।		
	(ii) विल्सन सर्वेक्षण में प्रविष्टि से पता चलता है कि संपत्ति संख्या 1563 इस प्रकार है:		
	''मुख्य बाजार पहाड़गंज से 1563 की प्रवेश गली, संपत्ति संख्या 1564 और 1561		
	मुख्य बाजार पहाड़गंज के बीच''		
2.	अविभाजित संपत्ति संख्या 2318-2321 का 3/4 भाग, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल	रु. 4.41 करोड़	रु. 44.10
	और चतुर्थ तल, वार्ड सं. 15, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली		लाख
1			

s. इंएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली– खाता आर.सी. संख्या 168/2017 के पक्ष में किया जाएगा साथ ही पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की रव-सत्यापित प्रति, जिसमें भावी पत्राचार हेतु पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में 09.09.2025 को 5.00 बजे अप. तक पहुँचानी होगी। इसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं के मामले में उक्त जमा राशि समायोजित की जाएगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी-क, दिल्ली से ईएमडी वापस ले सकता है।

ईएमडी वाले लिफाफे पर ''**आर.सी. संख्या 16**8/2017'' सहित प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि लिखा होना चाहिए इच्छुक बोलीदाताओं के पास ई-नीलामी में भाग लेने के लिए एक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ईमेल पता और पैन नंबर होना आवश्यक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, उद्योग विहार, फेज 2. गरुग्राम, हरियाणा -122015 (भारत), दरभाष: 91-124-4302020/21/22/23, 91 7291981124/25/26, संपर्क व्यक्तिः विनोद चौहान मोबाइल नंबरः 9813887931, ईमेलः SUPPORT@BANKEAUCTIONS.COM, वेबसाइटः HTTPS://WWW.BANKEACUTIONS.COM से संपर्क करें।

संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा तथ अग्रिम रुप से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो मेसर्स सी।इंडिया प्रा. लि की उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु अनिवार्य है।

. संबंधित बैंक अधिकारियों/हेल्

॥/हत्पलाइन नवरा जादि का विवरण निम्नानुसार हः -				
ईमेल तथा फोन नं	नाम एवं पद			
7798333145	विपिन शर्मा (मुख्य प्रबंधक)			

 जिन संपत्तियों की बिकी का प्रस्ताव है वे वे अधिकार हैं जिनमें प्रमाणित देनदार में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा संपत्तियां ''जैसा है जहाँ हैं'' तथा ''जो है यही है'' के आधार पर बेची जाएंगी। 11. संभावित बोलीदाता(ओं) द्वारा बिक्री की तिथि से पहले संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक के उपर्युक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है

12. अधोहस्ताक्षरी अनुचित पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थिगत करने का 13. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी डीआरटी-1 की रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त की जाएगी, बशर्ते वे पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध डाइविंग लाइसेंर

या सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करें। असफल बोलीदाताओं को अपनी धरोहर राशि वापस लेनी चाहिए तथा यदि वह उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी-क् दिल्ली/रजिस्ट्री, डीआरटी-I, दिल्ली अथवा बैंक से संपर्क करें। 14. बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित उपर्युक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां एवं दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ıs. संपत्ति को अनुसुची में निर्दिष्ट लॉटों में बिक्री हेतु रखा जाएगा। यदि प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक भाग की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी लॉट को गिराने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को सौंप दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि ऐसे प्रमाण पत्र की राशि, ब्याज तथा लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दी गई है, तब भी बिक्री 16. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में कोई भी बोली लगाने, अथवा लाः

अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा 17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसुची तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत वर्णन अथवा चूक हेतु

ıs. बोली राशि रु. 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) के गुणक में बढ़ाई जाएगी। बोली राशि अथवा बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट

9. सफ्ल/उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतन स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना अवांछनीय हो, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा 20. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को बिक्री आय के 25% के लिए डीडी/पे ऑर्डर तैयार करना होगा, जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली, खाता आर.सी. र

168/2017 को ई-नीलामी समाप्ति के 24 घंटे के भीतर तथा ईएमडी राशि (ज.ध.रा.) समायोजित करने के बाद उसे ई-नीलामी समाप्ति से 3 दिनों पूर्व वसूली अधिकार्र के कार्यालय में भेजना/जमा करना होगा, अन्यथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। 21. सफल/उच्चतम बोलीदाता को, बिक्री राशि का शेष 75%, डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, चसुली अधिकारी, डीआरटी–क दिल्ली खाता संख्या 168/2017 के नाम पर, वसूली अधिकारी, डीआरटी-I के समक्ष संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन उस दिन को छोड़कर, तक जमा करना होगा, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, पाउंडेज शुल्क सहित 2% की दर से रु. 1,000 तक तथा रु. 1000/– से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-कदिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा। (शेष 75% राशि डाक के माध्यम से उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुं

22. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा निर्गत होने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के व्ययों को चुकाने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता को संपत्ति पर या उस राशि के किसी भाग पर सभी दावों से बँचित होना पड़ेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

लॉट संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, सह-स्वामियों के नाम सहित, जहां संपत्ति चूककर्ता की है तथा कोई अन्य व्यक्ति सह-स्वामी है।	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर लगने वाले किसी भी ऋणभार का विवरण	संपत्ति पर किसी प्रकार के दावे का विवरण, संपत्ति के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण।
1.	संपत्ति संख्या 1563, मुख्य बाजार, पहाड्गंज, नई दिल्ली (i) विल्सन सर्वेक्षण मानचित्र की सहायता से यह स्चित किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति संख्या 1563 कटरा हुसैन बख्श (कटरा गदिरयां) में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार मुख्य बाजार, पहाड्गंज, दिल्ली में है। (ii) विल्सन सर्वेक्षण में प्रविष्टि से पता चलता है कि संपत्ति संख्या 1563 इस प्रकार है: "मुख्य बाजार पहाड्गंज से 1563 की प्रवेश गली, संपत्ति संख्या 1564 और 1561 मुख्य बाजार पहाड्गंज के बीच"		कोई जानकारी प्राप्त	: नहीं हुई
2.	अविभाजित संपत्ति संख्या 2318-2321 का 3/4 भाग, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल, वार्ड सं. 15, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली		कोई जानकारी प्राप्त	ा नहीं हुई

दिनांक 16.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित

(निरंजन शर्मा वसुली अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली